



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18—दिसम्बर 24, 2010 (अग्रहायण 27, 1932)

No. 51]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18—DECEMBER 24, 2010 (AGRAHAYANA 27, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

सं. ए-38012/11/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग में
निजी सचिव के पद पर कार्यरत श्रीमती पुष्पिन्दर कौर चड्ढा के.स.आ.से.
द्वारा अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2010 के अपराह्न
से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

ए. के. अहलुवालिया
वरि. प्रशासनिक अधिकारी

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 नवम्बर 2010

सं. डीपी/पर्स. (एम)/2010/3555/3/11/93--श्री एस. पी. करमाकर ने
अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 30.11.2010 के अपराह्न से कार्यालय
अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

एम. सचदेव
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 दिसम्बर 2010

सं. ए-38012/12/2010-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग
में वरि. प्र. निजी सचिव के पद पर कार्यरत श्री टी. एस. कोटीश्वरन,
के.स.आ.से. द्वारा अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31
अक्टूबर, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

ए. के. अहलुवालिया
वरि. प्रशासनिक अधिकारी

सं. डीपी/पर्स.-1/2010/7339/3/27/2008--श्री अश्वनी कुमार,
भा. पु. सेवा (एच.पी. : 1973) ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने
पर 30.11.2010 (पूर्वाह्न) से निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कार्यभार
छोड़ दिया है।

एस. जे. एम. गिलानी
उप निदेशक (प्रशा.)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

सं. 2/5/10-प्रशासन/111011--सक्षम प्राधिकारी, एतद्वारा आयोग में निम्नलिखित निजी सहायकों को निजी सचिव के पद पर वेतन बैंड रु. 9,300--34,800- में ग्रेड वेतन 4,800/- के साथ तदर्थ आधार पर दिनांक 20.08.2010 (पूर्वाह्न) से छः माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

1. श्री विवेक कुमार
2. श्रीमती नरेन्द्र कौर

आर. एन. नायक
विशेष कार्य अधिकारी (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 नवम्बर 2010

सं. ओ-दो-6812/2010-कार्मिक-(डी.ए.-5)--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 01.07.2010 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्रीमती नीलम कुमारी, सहायक कमान्डेन्ट (आई. आर.एल.ए.-6812) 33 बटा. के.रि.पु. बल, ने दिनांक 01.11.2010 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.11.2010 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

टी. चन्द्रशेखरन
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 30 नवम्बर 2010

सं. ओ. दो.-3862/10-कार्मिक (एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी, डॉ. सरोज कुमारी को केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल में स्पेशलिस्ट चिकित्साधिकारी (उप-कमाण्डेंट) (गैनेकोलजिस्ट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- साथ में रु. 6,600/- ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से दिनांक 25.11.2010 पूर्वाह्न से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें कम्पोजिट अस्पताल के.रि.पु. बल सिन्ध्री में तैनात किया जाता है।

टी. चन्द्रशेखरन
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

समन्वय निदेशालय
(पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-3, दिनांक 27 नवम्बर 2010

सं. ए-12012/4/स.नि./2009-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, इस निदेशालय के निम्नलिखित अतिरिक्त सहायक निदेशकों को सहायक निदेशक के पद पर वेतनमान रुपये 15,600--39,100-, ग्रेड वेतन रुपये 5,400/- में उनके नामों के आगे दर्शाई गई तिथियों से पदोन्नत करते हैं:--

1. श्री नरेश कुमार 11.11.2010
2. श्री बी. के. दत्ता 11.11.2010

3. श्री ए. पी. सिंह 11.11.2.010

4. श्री एम. जी. अन्धारे 12.11.2010

2. यह भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की दिनांक 08 नवम्बर, 2010 की डायरी संख्या शून्य द्वारा अनुमोदित है।

पी. के. सिंहल
निदेशक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), दिल्ली

नई दिल्ली-110002, दिनांक 29 नवम्बर 2010

सं. प्रशासन का.आ.सं.-75--निवर्तन की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप इस कार्यालय के श्रीमती कमलेश बक्शी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी दिनांक 31.12.2010 अपराह्न को भारत सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होंगी।

उनकी जन्म तिथि 01.01.1951 और नियुक्ति की तिथि 06.08.1973 है।

हेमा
वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशा.)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, ओडिशा

पुरी, दिनांक 29 नवम्बर 2010

सं. डब्ल्यू. एम.-47-2-डीए/डिए-II--प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ओडिशा, भुवनेश्वर ने श्री गजेन्द्र नाथ सेठी, मंडल लेखा अधिकारी ग्रेड-I को वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी (वर्ग ख राजपत्रित) के पद पर जिसका संशोधित वेतन संरचना (वेतन बैंड-3) समान वेतन बैंड रुपये 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रुपये 5,400/- पर दिनांक 04.11.2010 पूर्वाह्न से एवं उनके वरिष्ठों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अगले ओदशों तक, सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं।

हस्ता./- अपठनीय
उप महालेखाकार (लेखा निर्माण)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 30 नवम्बर 2010

सं. 5/1/2010-सी.पी.आई.--अक्तूबर, 2010 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100) 2 अंक बढ़कर 181 (एक सौ इकासी) अंकों के स्तर पर रहा।

एस. एस. नेगी
निदेशक

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2010

सं. ए-19011/337/2009-स्था. एपीपी--श्री पी. डी. गंगणे उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.10.2010 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

ग. रे. मूलचन्दानी
सहायक प्रशासन अधिकारी

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 30 नवम्बर 2010

सं. ए-19024/7/2010-प्रशा.-I--पे-बैंड-2, (रु. 9,300--34,800/-) + ग्रेड पे रु. 4,200- में वरिष्ठ रसायनज्ञ के पद पर पदोन्नत होने पर श्री पी. जी. सुरेन्द्र नायर, कनिष्ठ रसायनज्ञ ने दिनांक 03 नवम्बर, 2010 पूर्वाह्न से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, कोच्ची में वरिष्ठ रसायनज्ञ के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

ए. के. चोपड़ा
निदेशक (प्रशासन)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-85, दिनांक 19 नवम्बर 2010

संदर्भ : पीडी/11(1)/2010-भर्ती-III/2010/10126--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती स्नेहा सुभाष पोयरेकर, सहायक को दिनांक 16.08.2010 (पूर्वाह्न) से 02.11.2010 (अपराह्न) तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 29 नवम्बर 2010

संदर्भ : पीडी/2(5)/2007-भर्ती-IV/10356--राष्ट्रपति, श्री एस. आनंद को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, विशाखापटनम में वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 'सी' के पद पर रु. 15,600--39,100/- + 5,400/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में 30 जून, 2010 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ : पीडी/9(6)/2010-भर्ती-IV/10365--राष्ट्रपति, डॉ. सुदर्शन बरूवा को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 'डी' के पद पर रु. 15,600--39,100/- + 6,600/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में 23 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

मुंबई-400085, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

सं. 93/अधि./स्था. IA/112213--निम्नलिखित तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम-3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम-4 पर दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम-5 पर दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग दिया गया है :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार त्यागने का पद	पद त्याग करने की तारीख	घटना
1.	श्री संदीप दासगुप्ता	वै. अ./डी	04.10.2010 (अपराह्न)	त्यागपत्र
2.	श्री डी. एस. राव	वै. अ./एच	31.10.2010 (अपराह्न)	अधिवर्षिता
3.	श्री ए. जी. देशमुख	वै. अ./एच	31.10.2010 (अपराह्न)	अधिवर्षिता
4.	श्री वी. डी. चेरियन	वै. अ./जी	31.10.2010 (अपराह्न)	अधिवर्षिता
5.	श्री सतीश कुमार मुन्शी	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	31.10.2010 (अपराह्न)	सेवा अवधि में विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति
6.	श्री जॉन्सन गॅब्रीएल	वै. अ./जी	31.10.2010 (अपराह्न)	अधिवर्षिता
7.	श्रीमती मल्लिका नायडन	वै. अ./डी	31.10.2010 (अपराह्न)	अधिवर्षिता
8.	श्री के. के. ठकर	वै. अ./एफ	31.10.2010 (अपराह्न)	अधिवर्षिता
9.	श्री दिलीप कुमार शेंदे	वै. अ./एच	31.10.2010 (अपराह्न)	अधिवर्षिता

एन. डी. शर्मा
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 18 नवम्बर 2010

सं. 6(2055)/92-प्रशा./वाल्सू.-II/10867--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई के विशेष कार्य अधिकारी

[पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-] श्री सी. डी. चाको को दिनांक 03 नवम्बर 2010 की पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में आगामी आदेशों तक परमाणु ऊर्जा विभाग शाखा सचिवालय, मुंबई में अवर सचिव [पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-] के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. गोविंदनकुट्टी
अवर सचिव (प्रशासन)

मुंबई-400001, दिनांक 24 नवम्बर 2010

सं. 18/000/020/2010-ईआर/6163--राष्ट्रपति, श्री नीरज हनुमंते को दिनांक 25 अगस्त 2010 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) में वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + रु. 5,400/- (ग्रेड वेतन) में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के रूप में नियुक्त करते हैं।

ओ. टी. जी. नायर
अवर सचिव

सं. 18/000/019/2010-ईआर/6164--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को दिनांक 01.09.2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर नियुक्त करते हैं:--

क्रम	अधिकारी का नाम	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु. में)
सं.	और पदनाम	
1.	श्री निर्दोष कुमार गुप्ता	रु. 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 5,400/- (ग्रेड वेतन)
2.	श्री सौम्यदीप डे	रु. 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 5,400/- (ग्रेड वेतन)
3.	श्री सिद्धार्थ गाबा	रु. 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 5,400/- (ग्रेड वेतन)
4.	श्री महेश मुरलीधरन	रु. 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 5,400/- (ग्रेड वेतन)
5.	श्री गणेश बोकम	रु. 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 5,400/- (ग्रेड वेतन)
6.	श्री सुब्रत पाठक	रु. 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 5,400/- (ग्रेड वेतन)
7.	श्री बोरा अल्लारखा युसुफ	रु. 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 5,400/- (ग्रेड वेतन)
7.	कु. परिधि अग्रवाल	रु. 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 5,400/- (ग्रेड वेतन)
8.	श्री प्रशांत शर्मा	रु. 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 5,400/- (ग्रेड वेतन)

ओ. टी. जी. नायर
अवर सचिव

दिनांक 30 नवम्बर 2010

सं. 18/000/016/2010-ईआर/6220--राष्ट्रपति, श्री बिबेकानंद मिश्रा को दिनांक 15 जून 2010 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) में वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + रु. 6,600/- (ग्रेड वेतन) में वैज्ञानिक अधिकारी/डी के रूप में नियुक्त करते हैं।

ओ. टी. जी. नायर
अवर सचिव

सं. 18/000/016/2010-ईआर/6221--राष्ट्रपति, श्री प्रमोद कुमार दीक्षित को दिनांक 21 जून, 2010 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) में वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + रु. 6,600/- (ग्रेड वेतन) में वैज्ञानिक अधिकारी/डी के रूप में नियुक्त करते हैं।

ओ. टी. जी. नायर
अवर सचिव

सं. 18/000/016/2010-ईआर/6222--राष्ट्रपति, श्री मेघराज सिंह को दिनांक 15 जून, 2010 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) में वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + रु. 6,600/- (ग्रेड वेतन) में वैज्ञानिक अधिकारी/डी के रूप में नियुक्त करते हैं।

ओ. टी. जी. नायर
अवर सचिव

सं. 18/000/008/2010-ईआर/6229--राष्ट्रपति, श्रीमती पिकी चौधरी को दिनांक 19 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) में वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + रु. 6,600/- (ग्रेड वेतन) में वैज्ञानिक अधिकारी/डी के रूप में नियुक्त करते हैं।

ओ. टी. जी. नायर
अवर सचिव

सं. 18/000/008/2010-ईआर/6230--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईआरबी) के निम्नलिखित अधिकारियों को भावी आदेश होने तक उनके नाम के सामने उल्लिखित दिनांक से वैज्ञानिक अधिकारी/डी के रूप में नियुक्त करते हैं:--

क्र.	अधिकारी का नाम	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु. में)	दिनांक
सं.	और पदनाम		
1	2	3	4
1.	श्री थोकचोम देवान सिंह	15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 6,600/- (ग्रेड वेतन)	14.07.2010 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4
2.	श्री मयंक वर्मा	15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 6,600/- (ग्रेड वेतन)	26.7.2010 (पूर्वाह्न)
3.	डॉ. एस. पी. लक्ष्मनन	15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 6,600/- (ग्रेड वेतन)	06.8.2010 (पूर्वाह्न)
4.	श्री अमर मगन कुलकर्णी	15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 6,600/- (ग्रेड वेतन)	19.8.2010 (पूर्वाह्न)
5.	श्री सुब्रमणियन चोक्कलिंगम	15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 6,600/- (ग्रेड वेतन)	17.8.2010 (पूर्वाह्न)
6.	श्री देबाशीष मुखर्जी	15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 6,600/- (ग्रेड वेतन)	6.9.2010 (पूर्वाह्न)
7.	श्रीमती सुस्मिता मुखर्जी रॉय	15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 6,600/- (ग्रेड वेतन)	6.9.2010 (पूर्वाह्न)

ओ. टी. जी. नायर
अवर सचिव

सं. 18/000/008/2010-ईआर/6232--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) के निम्नलिखित अधिकारियों को भावी आदेश होने तक उनके नाम के सामने उल्लिखित दिनांक से वैज्ञानिक अधिकारी/ई के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. अधिकारी का नाम सं. और पदनाम	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन (रु. में)	दिनांक
1. श्री गौर मोहन बेहरा	15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 7,600/- (ग्रेड वेतन)	20.7.2010 (पूर्वाह्न)
2. श्रीमती एस. महालक्ष्मी	15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + 7,600/- (ग्रेड वेतन)	30.7.2010 (पूर्वाह्न)

ओ. टी. जी. नायर
अवर सचिव

सं. 18/000/008/2010-ईआर/6321--राष्ट्रपति, श्री मलय कुमार चक्रवर्ती को दिनांक 14 जुलाई, 2010 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) में वेतन

बैंड रु. 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) + रु. 7,600/- (ग्रेड वेतन) में तकनीकी अधिकारी/ई के रूप में नियुक्त करते हैं।

ओ. टी. जी. नायर
अवर सचिव

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 25 नवम्बर 2010

सं. क्रभनि/07012/भर्ती/5720--राष्ट्रपति, श्री भवतोश साहा, सहायक क्रय अधिकारी, [वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-], कोलकाता क्षेत्रीय क्रय एकक, (कोक्षेक्रे), कोलकाता को क्रय अधिकारी के पद पर वेतन बैंड (पी बी-3) रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में इंदौर क्षेत्रीय क्रय एकक, इंदौर, में दिनांक 08 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

केंथरीन राज
प्रशासन अधिकारी-III

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 18 नवम्बर 2010

सं. भापाबो/भर्ती/1(25)/2010--राष्ट्रपति, डॉ. रामा कृष्णा रावुला को दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड एवं रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन में वैज्ञानिक अधिकारी/सी (आयुर्विज्ञान - सामान्य औषध) के पद पर भारी पानी संयंत्र (मणुगुरू) आंध्र प्रदेश में अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

के. वी. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी

सं. भापाबो/भर्ती/1(25)/2010/981--राष्ट्रपति, डॉ. महेश मोटवानी को दिनांक 25 अक्टूबर, 2010 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड एवं रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन में वैज्ञानिक अधिकारी/सी (आयुर्विज्ञान - सामान्य औषध) के पद पर भारी पानी संयंत्र (कोट), राजस्थान में अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

के. वी. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चण्डीगढ़, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

सं. टीएस/560/3/1362--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1.	17455	मैसर्स स्टाईलैट फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	28512	मैसर्स आर्या भट्ट एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड
3.	31016	मैसर्स ब्ल्यू वाटर इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
4.	26090	मैसर्स टैन्थ मैट्रिक्स माईक्रोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	30935	मैसर्स फाइव रीवर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
6.	25202	मैसर्स धन्नाजी रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	29731	मैसर्स नन्दीशेर इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	07989	मैसर्स एस. आर. जे. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	23073	मैसर्स दोआबा कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
10.	23075	मैसर्स सिटी मरचैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	30780	मैसर्स एस. एच. ओनेक्स नैटलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	30753	मैसर्स सेफवर्ल्ड सिक्वोरिटी प्राईवेट लिमिटेड
13.	31258	मैसर्स अरहाम ज्वैल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	05568	मैसर्स रामा इंजीनियरिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
15.	30770	मैसर्स ओशन एग्रो कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	26685	मैसर्स सिरिजन आई. टी. एण्ड इन्जी. सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	32244	मैसर्स देशना इम्पीग्रेशन कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

राज सिंह

कम्पनी रजिस्ट्रार

पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स गीत गुंजन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

सं. आर.ओ.सी./14591/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान

पर मैसर्स गीत गुंजन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
कोलकाता, दिनांक 30 नवम्बर 2010

सं. आर.ओ.सी./प.बं./आई.पी.सी./560(एस.एम.)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	0096468	मैसर्स एड इण्डिया एडवर्गइजमेन्ट मल्टीनेट प्राईवेट लिमिटेड
2.	0096533	मैसर्स स्क्वायर गार्डन कन्सुमेबल्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	0096748	मैसर्स दर्शन फ्लोटेक प्राईवेट लिमिटेड
4.	0096795	मैसर्स सक्सेस कामर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
5.	0096837	मैसर्स सावन मेहन्दी प्राईवेट लिमिटेड
6.	0096413	मैसर्स पुष्पक भ्रमन प्राईवेट लिमिटेड
7.	0096463	मैसर्स ग्रीन फिल्ड रिसर्च एण्ड इन्वेंशन प्राईवेट लिमिटेड
8.	0096411	मैसर्स आर्यन्स ट्रान्स-सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
9.	0096578	मैसर्स ज्योति आयरन प्राईवेट लिमिटेड
10.	0096716	मैसर्स विज्ञान टेक्नोलॉजी कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	0096611	मैसर्स मायो डायग्नोस्टिक एण्ड फर्टिलिटी क्लीनिक प्राईवेट लिमिटेड
12.	0096635	मैसर्स त्रिनायोन मल्टीपरपज कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
13.	0096774	मैसर्स हेरीटेज वाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	0096062	मैसर्स टेरा टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
15.	0096272	मैसर्स सप्तर्षी कन्सैप्ट सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	0096255	मैसर्स लाईफ कन्ज़रवेशन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
17.	096268	मैसर्स मास्टर माईड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	096257	मैसर्स सेफ मोटिलीटि सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	096009	मैसर्स एडकोल एडहसीव प्राईवेट लिमिटेड
20.	096110	मैसर्स एकजाक्ट लेदर एण्ड एसेसरीज प्राईवेट लिमिटेड
21.	097131	मैसर्स जाफा ह्यूमेनकेयर प्राईवेट लिमिटेड
22.	096114	मैसर्स बर्मन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
23.	096716	मैसर्स विशन टेक्नोलॉजी कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	097316	मैसर्स एटीएफ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
25.	097301	मैसर्स त्रिप्ती मल्टी नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
26.	076310	मैसर्स एटलान्ट-मल्टी नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
27.	099527	मैसर्स जे ए एम मोटर्स लिमिटेड
28.	097933	मैसर्स मौर्या मेडिकल सप्लायिंग प्राईवेट लिमिटेड
29.	046119	मैसर्स जे आर ट्यूब लिमिटेड
30.	046317	मैसर्स एलिगेन्ट कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	046327	मैसर्स एस पी कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
32.	045220	मैसर्स इस्टर्न फॉयल लाइनर्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	045052	मैसर्स दीनाबंधु बिश्वास एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
34.	045012	मैसर्स जेएसएस प्रिन्टिंग इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
35.	045195	मैसर्स एक्ससी कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	045789	मैसर्स रे इंडस्ट्रीयल एन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
37.	045333	मैसर्स स्नो वाइट फ्लोर प्राईवेट लिमिटेड
38.	045364	मैसर्स छालसा रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	045373	मैसर्स ओवरलैण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	045953	मैसर्स हाइटेक प्रोटोनिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
41.	045133	मैसर्स परफिशिएन्ट केयर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
42.	045181	मैसर्स शक्ति कोल्ड रिट्रैड्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	045420	मैसर्स मोनार्क कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड
44.	045321	मैसर्स आर्यन्स रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	045331	मैसर्स बाइकॉन लाइम इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
46.	045258	मैसर्स पंचमुखी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
47.	045862	मैसर्स चेतन डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
48.	045745	मैसर्स एस. डी. फाउन्ड्री प्राईवेट लिमिटेड
49.	045715	मैसर्स एन. एम. फाइनैशियल एण्ड कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
50.	045913	मैसर्स आर्या कार्गो प्राईवेट लिमिटेड
51.	045817	मैसर्स बेलवुड इंडिया (इलेक्ट्रीकल) प्राईवेट लिमिटेड
52.	045870	मैसर्स विशाल मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड
53.	045886	मैसर्स शरद फार्म्स एण्ड होलिडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	045902	मैसर्स जुपीटर मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
55.	045907	मैसर्स वेलकम होम प्राईवेट लिमिटेड
56.	045131	मैसर्स बी एस एस मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
57.	086435	मैसर्स प्रियंका इनटेक प्राईवेट लिमिटेड
58.	086779	मैसर्स बिहारीजी मर्कैन्डायज़ प्राईवेट लिमिटेड
59.	086781	मैसर्स अस्ट्राल फिसकल प्राईवेट लिमिटेड
60.	086765	मैसर्स अमरेश एग्रो एन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
61.	086877	मैसर्स एम आर कन्फेक्शनर्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	086856	मैसर्स एथ केयर एग्रो (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
63.	086527	मैसर्स इन्फोरेक्स सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
64.	086893	मैसर्स हाइटेक पोलोग्राफ प्राईवेट लिमिटेड
65.	086992	मैसर्स रेलोस प्लामोल्ड प्राईवेट लिमिटेड
66.	086676	मैसर्स मल्टीजोन इन्फोरमेशन प्राईवेट लिमिटेड
67.	086919	मैसर्स एफ ए एम मशीनरी वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	078230	मैसर्स युवन कमर्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	092595	मैसर्स मागनस मिनरल्स लिमिटेड
70.	092894	मैसर्स एम टी एम टेक्नोग्रुप प्राईवेट लिमिटेड
71.	092868	मैसर्स रूबी एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड
72.	092695	मैसर्स सोल फूड एण्ड रेस्टोरेंट प्राईवेट लिमिटेड
73.	092544	मैसर्स पिगासस गारमेंट्स मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
74.	092675	मैसर्स डायनामिक फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
75.	092623	मैसर्स विष्णु प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
76.	092641	मैसर्स एम डी के सिक्कूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
77.	092687	मैसर्स स्ट्रेटेजिक एकाउन्टिंग सॉफ्टवेयर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
78.	092352	मैसर्स लारी ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड
79.	092848	मैसर्स प्लास्टो पाईट प्राईवेट लिमिटेड
80.	092309	मैसर्स मोशेक पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
81.	092698	मैसर्स जे. जी. सर्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	092823	मैसर्स एम. टी. एन्टरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड
83.	092733	मैसर्स जोड्यक एडवाइजरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
84.	092745	मैसर्स ऑनली स्टील ट्यूब डॉटकाम प्राईवेट लिमिटेड
85.	092700	मैसर्स एसएसबीएम सॉफ्टवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	092696	मैसर्स इनेट माइक्रो इन्फोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	092170	मैसर्स ए. डी. निर्माण प्राईवेट लिमिटेड
88.	092215	मैसर्स अडार्न रिसोर्ट्स एण्ड क्लब प्राईवेट लिमिटेड
89.	092373	मैसर्स सिस्टर इंडिया फार्म्स एण्ड प्रोसेस्ड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	092312	मैसर्स मोनालिसा सर्विस लिंक प्राईवेट लिमिटेड
91.	092270	मैसर्स इन्ड्रा निर्माण प्राईवेट लिमिटेड
92.	092378	मैसर्स के एच बी अर्थमूवर सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
93.	092852	मैसर्स पी. एस. डिजाइन टेक प्राईवेट लिमिटेड
94.	092854	मैसर्स दीपा डायबेटिक क्लीनिक एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
95.	092127	मैसर्स बरसस एडवरटाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
96.	092729	मैसर्स विबग्योर ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड
97.	092377	मैसर्स उपासना एन्टरटेनमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
98.	092343	मैसर्स मेक्सवेल अपलाइंसिस प्राईवेट लिमिटेड
99.	092477	मैसर्स ब्रह्मदत्ता विजय कुमार बिलियन ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	092197	मैसर्स जी एम जी टूर्स एण्ड ट्रेवलर्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	092037	मैसर्स बेकर्स स्ववायर कन्फेक्शनरीज प्राईवेट लिमिटेड
102.	092963	मैसर्स कलकत्ता सॉकर लिमिटेड

हरिहर साहू
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 1 दिसम्बर 2010

सं. 560(5)/2010/8832--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	रजिस्टर सं.	कम्पनी का नाम
1.	000472	मैसर्स एक्सेलसियर इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	006024	मैसर्स सारावगी पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	007897	मैसर्स टापटा कंचन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	007742	मैसर्स बम्बू टेक प्राईवेट लिमिटेड
5.	003432	मैसर्स अरुणाचल ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	003496	मैसर्स नारोडिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	005828	मैसर्स डीआर बिनोयस हाईजीन प्रोमोशन प्राईवेट लिमिटेड
8.	004014	मैसर्स टेयांग हुड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	008886	मैसर्स अरूहन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
10.	009415	मैसर्स आशा एम. के. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
11.	008967	मैसर्स मैजिकल टैरू मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
12.	009550	मैसर्स मूनलाईट एसबी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
13.	009009	मैसर्स सुपर इश्योरेंस सर्विसेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
14.	009993	मैसर्स वीनस एच.बी.बी. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
15.	005704	मैसर्स कारबी टी प्लांटेशन प्राईवेट लिमिटेड
16.	006304	मैसर्स काकोजान टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
17.	005203	मैसर्स होपक टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

जी. सी. यादव
कम्पनी रजिस्ट्रार
शिलांग

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

सं. आर.ओ.सी.560(5)/4966--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित

कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15-007755	मैसर्स रूरल मार्केटिंग (उड़ीसा) प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-007762	मैसर्स जे. जे. एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-007770	मैसर्स मल्टीआप्शन सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-007777	मैसर्स उत्कल मल्टीप्लैक्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-007779	मैसर्स ओमसाई जरनेट प्राईवेट लिमिटेड
6.	15-007784	मैसर्स भभानी केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-007786	मैसर्स रोपो मैनेजमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
8.	15-007787	मैसर्स संभव सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	15-007791	मैसर्स नरसिंह सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
10.	15-007793	मैसर्स मारुती ओरस प्राईवेट लिमिटेड
11.	15-007794	मैसर्स निर्माण विकास प्राईवेट लिमिटेड
12.	15-007797	मैसर्स आर्यन बायो-मेडिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	15-007798	मैसर्स रे फिनकॉन प्राईवेट लिमिटेड
14.	15-007799	मैसर्स आखण्डलमानी रीयल एस्टेट एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	15-007803	मैसर्स लक्ष्मीनारायण मार्केटिंग एण्ड नेटवर्किंग कनसेप्ट प्राईवेट लिमिटेड
16.	15-007807	मैसर्स मा सोडासी सिक्युरिटी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
17.	15-007813	मैसर्स आर. एस. शुगर कं. प्राईवेट लिमिटेड
18.	15-007814	मैसर्स एसएनबी ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
19.	15-007820	मैसर्स जयश्री एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड
20.	15-007828	मैसर्स स्वर्ण हीरा एस्टेट एण्ड प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	15-007804	मैसर्स पेद्रीयाल एस्टेट एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
22.	15-007836	मैसर्स सिग्नल बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	15-007845	मैसर्स रथी वास्तु कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	15-007848	मैसर्स बौ रीयल एस्टेट एण्ड प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
25.	15-007851	मैसर्स पी. के. मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	15-007858	मैसर्स रीयलकेयर बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	15-007864	मैसर्स इंफासिस कंस्ट्रक्शन एण्ड टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
28.	15-007865	मैसर्स मा किछकेश्वरी रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	15-007871	मैसर्स बुडेबी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	15-007872	मैसर्स कृषकबंधु बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
31.	15-007877	मैसर्स नोबल प्लेसमेंट गाइडेंस सेल प्राईवेट लिमिटेड
32.	15-007882	मैसर्स पांडा माईस एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
33.	15-007833	मैसर्स ग्लीन नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
34.	15-002137	मैसर्स जे. जे. फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
35.	15-005306	मैसर्स विलटैक इलैक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
36.	15-007889	मैसर्स मा किछकेश्वरी मिनरल्स एण्ड मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	15-007896	मैसर्स ओम सरला इस्टकॉन प्राईवेट लिमिटेड
38.	15-007897	मैसर्स श्री श्री सॉफ्टकान प्राईवेट लिमिटेड
39.	15-007900	मैसर्स हीरा हर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	15-007905	मैसर्स श्री गोपाल क्रिएशंस प्राईवेट लिमिटेड
41.	15-007907	मैसर्स सिबा मिक्स प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	15-007909	मैसर्स लैंडलिंक्स कंस्ट्रक्शन्स एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	15-007917	मैसर्स साईनाथ टूर्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	15-007921	मैसर्स प्रधान माईस एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	15-007927	मैसर्स बानेश्वर मिनरल प्राईवेट लिमिटेड
46.	15-007928	मैसर्स कामयाब मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
47.	15-007929	मैसर्स श्रीकृष्ण गार्गी हॉस्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	15-007937	मैसर्स लोर्ड्स जेबीएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
49.	15-007938	मैसर्स जगधात्री एस्टेट्स एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
50.	15-007940	मैसर्स शब्रानी ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	15-007943	मैसर्स पोलीकन मिनरल एण्ड आयरन प्राईवेट लिमिटेड
52.	15-007944	मैसर्स वेंकटा साई मरीन एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
53.	15-007948	मैसर्स गोपीनाथ रीयल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
54.	15-007949	मैसर्स सर्वोत्तम इस्पात प्राईवेट लिमिटेड
55.	15-007958	मैसर्स केदारगौरी बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	15-007959	मैसर्स हरदेव प्लसेमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
57.	15-007963	मैसर्स प्रशांत इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलिकॉम स्पेयर्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	15-007964	मैसर्स श्री बिहारी जी इलैक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
59.	15-007965	मैसर्स बीआरटीएस मरीन प्राईवेट लिमिटेड
60.	15-007966	मैसर्स ग्रेट सेवन मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
61.	15-007884	मैसर्स लुम्बिनी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	15-007960	मैसर्स जेबीएस इन्फोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड

बी. मोहन्ती
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 25 नवम्बर 2010

सं. आर.ओ.सी.बी./एम.सी.ए.-21/टी.ए.-एम.एम./560(3)/
2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के
अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के
अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

न किये गये तो रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और उक्त कम्पनी विघटित कर
दी जाएंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	30618	मैसर्स दक्षिण मशीन टूलस प्राईवेट लिमिटेड
2.	07152	मैसर्स कुंदापुर फाईनेस एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. प्राईवेट लिमिटेड
3.	44753	मैसर्स ट्रांसजेनिक बायोलॉजिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	28673	मैसर्स गांडीव इंफोटेक प्राईवेट लिमिटेड
5.	03081	मैसर्स होम इक्वीप्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	40693	मैसर्स भूमिका इनोवेशंस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
7.	09265	मैसर्स एन. आई. प्रापर्टीज एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
8.	12213	मैसर्स किडीयूर इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	13273	मैसर्स मेहता इण्डस्ट्रीयल सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	43097	मैसर्स सुप्रा सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	46790	मैसर्स नेक्स-जी सिस्टम्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
12.	32460	मैसर्स एजिगोस कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
13.	31457	मैसर्स ड्यूडॉक्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	46239	मैसर्स यूनियनेट इमेंजिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
15.	40221	मैसर्स सेलेरिटी सोल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड
16.	43176	मैसर्स सीबी नेटवर्क केड्स इंजीनियरिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
17.	31976	मैसर्स पेकनेट कम्युनिकेशंस प्राईवेट लिमिटेड
18.	33428	मैसर्स टेक्नो प्रगति इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड

गीता महालक्ष्मी के.
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 29th October 2010

No. A-38012/11/2010-Admn.I—The President is pleased to permit Smt. Pushpinder Kaur Chadha, CSSS, working as Private Secretary in UPSC to retire from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st October, 2010.

A. K. AHLUWALIA
Senior Administrative Officer

No. A-38012/12/2010-Admn.I—The President is pleased to permit Shri T. S. Koteeswaran, CSSS, working as Sr. PPS in UPSC to retire from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st October, 2010.

A. K. AHLUWALIA
Senior Administrative Officer

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 30th November 2010

No. DP/PERS.(M)2010/3555/3/11/93—Shri S. C. Karmaker, relinquished the charge of the post of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 30.11.2010 on attaining the age of superannuation.

M. SACHDEV
Administrative Officer (Pers.)

New Delhi-110003, the 6th December 2010

No. DP/PERS.I/2010/7339/3/27/2008—Shri Ashwani Kumar, IPS (HP : 1973) has relinquished the charge of the office of Director, Central Bureau of Investigation, New Delhi with effect from the afternoon of 30.11.2010 on attaining the age of superannuation.

S. J. M. GILLANI
Dy. Director (Admn.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 2nd December 2010

No. 2/5/10-Admn/111011—The Competent Authority hereby appoints the following Personal Assistant in the Commission as Private Secretary on ad hoc basis in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 20th August, 2010 (F/N) for a period of six months or till further orders, whichever is earlier :—

- (i) Shri Vivek Kumar
- (ii) Smt. Narinder Kaur

R. N. NAYAK
Officer on Special Duty (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-110003, the 29th November 2010

No. O-II-6812/2010-Pers (DA-5)—Consequent on acceptance of notice dated 01.07.2010 for Voluntary Retirement from service, Smt. Neelam Kumari, Assistant Commandant (IRLA : 6812) of 33 Bn CRPF relinquished the charge of her post on the forenoon of 1st November, 2010. Accordingly, she has been struck off the strength of this department with effect from the same date i.e. 01.11.2010 (FN).

T. CHANDRASEKHARAN
DIG (Pers.)

The 30th November 2010

No. O-II-3862/2010-Pers (MOS)—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Saroj Kumari as Specialist Medical Officer (Deputy Commandant) (Obst & Gynae) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in temporary capacity from the forenoon of 25.11.2010 till further orders. She is posted to Composite Hospital, CRPF, Sindri.

T. CHANDRASEKHARAN
DIG (Pers.)

DIRECTORATE OF COORDINATION

(POLICE WIRELESS)

New Delhi-110003, the 27th November 2010

No. A-12012/4/AD/2009-Admn.II—The President is pleased to promote the following Extra Assistant Directors of this Directorate to the post of Assistant Director in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/-, Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the date mentioned against their names :—

1. Shri Naresh Kumar—11.11.2010
2. Shri V. K. Dutta—11.11.2010
3. Shri A. P. Singh—11.11.2010
4. Shri M. J. Andhare—12.11.2010

2. This has the approval of the Govt. of India, MHA, New Delhi, vide their Dy. No. Nil dated 8th November, 2010.

P. K. SINGHAL
Dir.

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)
DELHI

New Delhi-110002, the 29th November 2010

No. Admn.O.O. No. 75—Consequent upon her attaining the age of superannuation Smt. Kamlesh Bakshi, Sr. Audit

Officer of this office will be retiring from the Government Service with effect from afternoon of 31.12.2010.

Her date of birth is 01.01.1951 and date of appointment in Government Service is 06.08.1973.

HEMA
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (A & E) ORISSA

Puri, the 29th November 2010

No. WM-47-2-DA/DAO-1338—The Principal Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar has been pleased to allow Sri Gajendranath Sethy, Divisional Accounts Officer Gr. I to officiate as Senior Divisional Accounts Officer (Group-B Gazetted) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 04.11.2010 F.N. without prejudice to the claims of his seniors until further order.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General
(Works Accounts)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
(LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 30th November 2010

No. 5/1/2010-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001 = 100 increased by 2 points and stood at 181 (one hundred & eightyone) for the month of October, 2010.

S. S. NEGI
Dir.

MINISTRY OF MINES
(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 22nd November 2010

No. A-19011/337/2009-Estt.APP—Shri P. D. Gangane Deputy Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines, Nagpur has relinquished charge on the afternoon of 31.10.2010 on attaining the age of superannuation.

G. R. MULCHANDANI
Asstt. Admn. Officer

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &
COOPERATION)

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

N.H.IV, Faridabad, the 30th November 2010

No. A-19024/7/2010-A.I.—Consequent upon his promotion to the post of Senior Chemist in Pay Band-2

(Rs. 9,300—34,800) + Grade Pay of Rs. 4,200/-, Shri P. G. Surendra Nair, Junior Chemist has joined duty as Senior Chemist in the Directorate of Marketing & Inspection, Regional Agmark Laboratory, Kochi with effect from 3rd November, 2010 (Forenoon).

A. K. CHOPRA
Dir. (Adm.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 19th November 2010

No. PD/11(1)/2010-R-III-2010—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Sneha Subhash Poyarekar as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 16.08.2010 (FN) to 02.11.2010 (AN).

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

The 29th November 2010

No. PD/2(5)/2007-R-IV/10356—The President is pleased to appoint Shri S. Anand as Scientific Officer Grade 'C' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- Grade Pay in Bhabha Atomic Research Centre, Vizag in a temporary capacity with effect from the forenoon of 30th June, 2010 until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

No. PD/9(6)/2010-R-IV/10365—The President is pleased to appoint Dr. Sudarshan Baruah as Scientific Officer Grade 'D' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- Grade Pay in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from the forenoon of 23rd July, 2010 until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

Mumbai-400085, the 1st December 2010

No. 93/Noti./Estt.IA/112213—The Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3

with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :—

Sl. No.	Name of the Officer	Relinquished the charge of the post	Date of relinquishment	Event
1.	Sh. Sandeep Dasgupta	SO/D	04.10.2010 (AN)	Resignation
2.	Sh. D. S. Rao	SO/H	31.10.2010 (AN)	Superannuation
3.	Sh. A. G. Deshmukh	SO/H	31.10.2010 (AN)	Superannuation
4.	Sh. V. D. Cheriyan	SO/G	31.10.2010 (AN)	Superannuation
5.	Sh. Satish Kumar Munshi	Outstanding Scientist	31.10.2010 (AN)	Retirement After Extn. of Service
6.	Sh. Johnson Gabriel	SO/G	31.10.2010 (AN)	Superannuation
7.	Smt. Mallika Narayan	SO/D	31.10.2010 (AN)	Superannuation
8.	Sh. K. K. Thaker	SO/F	31.10.2010 (AN)	Superannuation
9.	Sh. Dilip Kumar Shendre	SO/H	31.10.2010 (AN)	Superannuation

N. D. SHARMA
Controller

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 18th November 2010

No. 6(2055)/92-Admn./Vol.II/10867—The President is pleased to appoint Shri C. D. Chacko, Officer-on-Special Duty [PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 6,600/-] Department of Atomic Energy Secretariat, Mumbai as Under Secretary [PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 6,600/-] in the Department of Atomic Energy Secretariat, Mumbai with effect from the forenoon of 3rd November 2010 until further orders.

V. GOVINDANKUTTY
Under Secy. (Admn.)

Mumbai-400001, the 24th November 2010

No. 18/000/020/2010-ER/6163—The President is pleased to appoint Shri Neeraj Hanumante as Scientific Officer (C) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Rs. 5,400/- (Grade Pay) at the Atomic Energy Regulatory Board (AERB), Mumbai with effect from the forenoon of August 25, 2010 until further orders.

O. T. G. NAIR
Under Secy.

No. 18/000/019/2010-ER/6164—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Scientific Officer (C) in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) with effect from the forenoon of 01.09.2010 until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Pay Band and Grade Pay (in Rs.)
1.	Sh. Nirdosh Kumar Gupta	Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + 5,400/- (Grade Pay)
2.	Sh. Soumyadip Dey	Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + 5,400/- (Grade Pay)
3.	Sh. Siddhartha Gauba	Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + 5,400/- (Grade Pay)
4.	Sh. Mahesh Muraleedharan	Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + 5,400/- (Grade Pay)
5.	Sh. Ganesh Bokam	Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + 5,400/- (Grade Pay)
6.	Sh. Subrata Pathak	Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + 5,400/- (Grade Pay)
7.	Sh. Vora Allaraka Yusuf	Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + 5,400/- (Grade Pay)
8.	Kum. Paridhi Aggarwal	Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + 5,400/- (Grade Pay)
9.	Sh. Prashant Sharma	Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + 5,400/- (Grade Pay)

O. T. G. NAIR
Under Secy.

The 30th November 2010

No. 18/000/016/2010-ER/6220—The President is pleased to appoint Shri Bibekananda Mishra as Scientific Officer (D) in the Pay Band Rs. 15,600—39,100 (PB-3) + 6,600/- (Grade Pay) in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) with effect from the forenoon of June 15, 2010 until further orders.

O. T. G. NAIR
Under Secy.

No. 18/000/016/2010-ER/6221—The President is pleased to appoint Shri Pramod Kumar Dixit as Scientific Officer (D) in the Pay Band Rs. 15,600—39,100 (PB-3) + 6,600/- (Grade Pay) in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) with effect from the forenoon of June 21, 2010 until further orders.

O. T. G. NAIR
Under Secy.

No. 18/000/016/2010-ER/6222—The President is pleased to appoint Shri Megh Raj Singh as Scientific Officer (D) in the Pay Band Rs. 15,600—39,100 (PB-3) + 6,600/- (Grade Pay)

in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) with effect from the forenoon of June 15, 2010 until further orders.

O. T. G. NAIR
Under Secy.

No. 18/000/008/2010-ER/6229—The President is pleased to appoint Smt. Pinki Choudhary as Technical Officer (D) in the Pay Band Rs. 15,600—39,100 (PB-3) + 6,600/- (Grade Pay) in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) with effect from the forenoon of July 19, 2010 until further orders.

O. T. G. NAIR
Under Secy.

No. 18/000/008/2010-ER/6230—The President is pleased to appoint following officers in the grade of Scientific Officer (D) in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) with effect from the date indicated against their names until further orders :—

Sl. Name of the Officer No.	Pay Band and Grade Pay (in Rs.)	Date
1. Shri Thokchom Dewan Singh	15,600—39,100 (PB-3)+6,600 (Grade Pay)	14.07.2010 (FN)
2. Shri Mayank Verma	15,600—39,100 (PB-3)+6,600 (Grade Pay)	26.07.2010 (FN)
3. Dr. S. P. Lakshmanan	15,600—39,100 (PB-3)+6,600 (Grade Pay)	06.08.2010 (FN)
4. Shri Amar Magan Kulkarni	15,600—39,100 (PB-3)+6,600 (Grade Pay)	19.08.2010 (FN)
5. Shri Subramanian Chockalingam	15,600—39,100 (PB-3)+6,600 (Grade Pay)	17.08.2010 (FN)
6. Shri Debashis Mukherjee	15,600—39,100 (PB-3)+6,600 (Grade Pay)	06.09.2010 (FN)
7. Smt. Susmita Mukherjee Roy	15,600—39,100 (PB-3)+6,600 (Grade Pay)	06.09.2010 (FN)

O. T. G. NAIR
Under Secy.

No. 18/000/008/2010-ER/6232—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Scientific Officer (E) in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB)

with effect from the date indicated against their names until further order :—

Sl. Name of the Officer No.	Pay Band and Grade Pay (in Rs.)	Date
1. Shri Gour Mohan Behera	15,600—39,100 (PB-3)+7,600 (Grade Pay)	20.07.2010 (FN)
2. Smt. S. Mahalakshmi	15,600—39,100 (PB-3)+7,600 (Grade Pay)	30.07.2010 (FN)

O. T. G. NAIR
Under Secy.

No. 18/000/008/2010-ER/6321—The President is pleased to appoint Shri Moloy Kumar Chakraborty as Technical Officer (E) in the Pay Band Rs. 15,600—39,100 (PB-3) + 7,600/- (Grade Pay) in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB), Mumbai with effect from the forenoon of July 14, 2010 until further orders.

O. T. G. NAIR
Under Secy.

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400094, the 25th November 2010

No. DPS/07012/Rectt/5720—The President is pleased to appoint Shri Bhabatosh Saha, Assistant Purchase Officer, [Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay Rs. 4,800/-], Calcutta Regional Purchase Unit, (CRPU), Kolkata in the grade of Purchase Officer in the Pay Band (PB-3) Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay Rs. 6,600/- from the forenoon of November 8, 2010 in Indore Regional Purchase Unit, Indore, until further orders.

CATHERINE RAJ
Admin. Officer-III

HEAVEY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 18th November 2010

No. HWB/R/1(25)/2010/980—The President is pleased to appoint Dr. Rama Krishna Ravula as Scientific Officer/C (Medical—General Medicine) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 5,400/- in Heavy Water Plant (Manuguru), Andhra Pradesh with effect from the 14.10.2010 (FN) in a temporary capacity until further orders.

K. V. PILLAI
Admin. Officer

No. HWB/R/1(25)/2010/981—The President is pleased to appoint Dr. Mahesh Motwani as Scientific Officer/C

(Medical—General Medicine) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 5,400/- in Heavy Water Plant (Kota), Rajasthan with effect from the 25.10.2010 (FN) in a temporary capacity until further orders.

K. V. PILLAI
Admin. Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

O/o REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956
and of the following Companies

Chandigarh, the 1st December 2010

No. TS/560/3/1362—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said companies shall be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	17455	M/s. Stylet Finance Private Limited
2.	28512	M/s. Arya Bhatta Education Private Limited
3.	31016	M/s. Blue Water Enterprises Private Limited
4.	26090	M/s. Tenth Matrix Microsystems Private Limited
5.	30935	M/s. Five River Marketing Private Limited
6.	25202	M/s. Dhannaji Resorts Private Limited
7.	29731	M/s. Nandisher Impex Private Limited
8.	07989	M/s. S R J Exports Private Limited
9.	23073	M/s. Doaba Commercial Private Limited
10.	23075	M/s. City Merchants Private Limited
11.	30780	M/s. S. H. Onex Netlinks Private Limited
12.	30753	M/s. Safeworld Security Private Limited
13.	31258	M/s. Arham Jewels Private Limited
14.	05568	M/s. Rama Engineering Co Private Limited
15.	30770	M/s. *Ocean Agro Chemicals Private Limited
16.	26685	M/s. Srigen IT and Engg. Solutions Private Limited

1	2	3
17.	32244	M/s. Deshna Immigration Consultants Private Limited

RAJ SINGH
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Geet Gunjan Properties Private Limited

Ahmedabad-380013, the 1st December 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00006/18226—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Geet Gunjan Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of Companies Act, 1956
and of the following Companies

Kolkata-700020, the 30th November 2010

No. WB/IPC/560 SM/2010—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	0096468	M/s. AD India Advertisement Multinet Private Limited
2.	0096533	M/s. Square Garden Consumables Private Limited
3.	0096748	M/s. Darshan Flowtech Private Limited
4.	0096795	M/s. Success Commercial Private Limited
5.	0096837	M/s. Sawan Mehendi Private Limited
6.	0096413	M/s. Pushpak Bhraman Private Limited
7.	0096463	M/s. Greenfield Research & Innovation Private Limited
8.	0096411	M/s. Aryans Trans-Services Private Limited
9.	0096578	M/s. Jyoti Iron Private Limited

1	2	3	1	2	3
10.	0096716	M/s. Vision Technology Consultants Private Limited	38.	0045364	M/s. Chalsa Roller Flour Mills Private Limited
11.	0096611	M/s. Mayo Diagnostic & Fertility Clinic Private Limited	39.	0045373	M/s. Overland Hotels Private Limited
12.	0096635	M/s. Trinayoni Multipurpose Cold Storage Private Limited	40.	0045953	M/s. Hi-Tech Pretronics India Private Limited
13.	0096774	M/s. Heritage Wines Private Limited	41.	045133	M/s. Perficient Commerce India Private Limited
14.	0096062	M/s. Tera Technologies Private Limited	42.	045181	M/s. Shakti Cold Retreads Private Limited
15.	0096272	M/s. Saptarshi Concept Sales Private Limited	43.	045420	M/s. Monarch Computech Private Limited
16.	0096255	M/s. Life Conservation Technologies Private Limited	44.	045321	M/s. Aryans Real Estates Private Limited
17.	0096268	M/s. Master-Minds Distributors Private Limited	45.	045331	M/s. Bicon Lime Industries Private Limited
18.	0096257	M/s. Safe Motility Solutions Private Limited	46.	045258	M/s. Panchmukhi Marketing Private Limited
19.	0096009	M/s. Adcol Adhesive Private Limited	47.	045862	M/s. Chetan Development Private Limited
20.	0096110	M/s. Exact Leather & Accessories Private Limited	48.	045745	M/s. S.D. Foundry Private Limited
21.	0097131	M/s. Jaffa Humancare Private Limited	49.	045715	M/s. N. M. Financial & Consultancy Private Limited
22.	0096114	M/s. Barman Marketing Private Limited	50.	045913	M/s. Arya Cargo Private Limited
23.	0096716	M/s. Vision Technology Consultants Private Limited	51.	045817	M/s. Belwood India (Electrical) Private Limited
24.	0097316	M/s. ATF Marketing Private Limited	52.	045870	M/s. Vishal Machinery Private Limited
25.	0097301	M/s. Tripti Multi Network Marketing Private Limited	53.	045886	M/s. Sharad Farms & Holdings Private Limited
26.	0097310	M/s. Atlanta-Multinetwork Private Limited	54.	045902	M/s. Jupiter Management Services Private Limited
27.	0099527	M/s. J A M Motors Limited	55.	045907	M/s. Welcome Home Private Limited
28.	0097933	M/s. Maurya Medical Staffing Private Limited	56.	045131	M/s. B. S. S. Marketing Private Limited
29.	0046119	M/s. J R Tube Limited	57.	086435	M/s. Priyanka Intech Private Limited
30.	0046317	M/s. Elegant Consultants Private Limited	58.	086779	M/s. Bihariji Mercantile Private Limited
31.	0046237	M/s. S. P. Cold Storage Private Limited	59.	086781	M/s. Astral Fiscal Private Limited
32.	0045220	M/s. Eastern Foil Liners Private Limited	60.	086765	M/s. Amaresh Agro Enterprises Private Limited
33.	0045052	M/s. Dinabandhu Biswas & Company Private Limited	61.	086877	M/s. M. R. Confectioners Private Limited
34.	0045012	M/s. JSS Printing Industries Private Limited	62.	086856	M/s. Earthcare Agro (India) Private Limited
35.	0045195	M/s. AXC Computers Private Limited	63.	086527	M/s. Inforex System Private Limited
36.	0045789	M/s. Ray Industrial Enterprises Private Limited	64.	086893	M/s. Hightech Polygraph Private Limited
37.	0045333	M/s. Snow White Flour Private Limited	65.	086992	M/s. Ralos Plamold Private Limited
			66.	086676	M/s. Multizone Information Private Limited

1	2	3
67.	086919	M/s. F. A. M. Machinery Works Private Limited
68.	086230	M/s. Yuvan Commerce Private Limited
69.	092595	M/s. Magnus Minerals Limited
70.	092894	M/s. MTM Technogroup Private Limited
71.	092868	M/s. Ruby Entertainment Private Limited
72.	092695	M/s. Soul Food & Restaurent Private Limited
73.	092544	M/s. Pegasus Garments Manufacturing Private Limited
74.	092675	M/s. Dynamic Finlease Private Limited
75.	092623	M/s. Vishnu Properties Private Limited
76.	092641	M/s. M. D. K. Securities Private Limited
77.	092687	M/s. Strategic Accounting Software India Private Limited
78.	092352	M/s. Lari Travels Private Limited
79.	092848	M/s. Plasto Point Private Limited
80.	092309	M/s. Morok Packaging Private Limited
81.	092698	M/s. J. G. Surveyors Private Limited
82.	092823	M/s. M. T. Enterprise Private Limited
83.	092733	M/s. Zodiac Advisory Services Private Limited
84.	092745	M/s. Only Steel Tube Dotcom Private Limited
85.	092700	M/s. SSBM Softwares Private Limited
86.	092696	M/s. Inett Micro Informatics Private Limited
87.	092170	M/s. A. D. Nirman Private Limited
88.	092215	M/s. Adorn Resorts & Club Private Limited
89.	092373	M/s. Sister India Farms & Processed Foods Private Limited
90.	092312	M/s. Monalisa Service Link Private Limited
91.	092270	M/s. Indra Nirman Private Limited
92.	092378	M/s. KHB Earthmover Sales Private Limited
93.	092852	M/s. P. S. Design Tech Private Limited
94.	092854	M/s. Dipa Diabetic Clinic & Research Centre Private Limited
95.	092127	M/s. Versus Advertising Private Limited

1	2	3
96.	092729	M/s. Vibgyor Jewellery Private Limited
97.	092377	M/s. Upasana Entertainment Company Private Limited
98.	092343	M/s. Maxwell Appliances Private Limited
99.	092477	M/s. Brahmdukt Bijoy Kumar Bullion Traders Private Limited
100.	092197	M/s. GMG Tours & Travels Private Limited
101.	092037	M/s. Bakers Square Confectionaries Private Limited
102.	092963	M/s. Calcutta Soccer Limited

HARIHARA SAHOO
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of Companies Act, 1956
and of the following Companies

Shillong-793001, the 1st December 2010

No. ROC/SH/560(5)/2010/8832—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	000472	M/s. Excelsior Engineering Works Private Limited
2.	006024	M/s. Sarawgi Polymers Private Limited
3.	007897	M/s. Tapta Kanchan Marketing Private Limited
4.	007742	M/s. Bamboo Tec Private Limited
5.	003432	M/s. Arunachal Drugs and Pharmaceuticals Private Limited
6.	003496	M/s. Narodia Agro Products Private Limited
7.	005828	M/s. Dr. Binoy S Hygiene Promotion Private Limited
8.	004014	M/s. Teyang Wood Products Private Limited
9.	008886	M/s. Arohan Marketing Private Limited
10.	009415	M/s. Asha M. K. Marketing Private Limited

1	2	3
11.	008967	M/s. Magical Trio Multitrade Private Limited
12.	009550	M/s. Moon Light SB Marketing Private Limited
13.	009009	M/s. Super Insurance Services (India) Private Limited
14.	009993	M/s. Venus H. B. B. Marketing Private Limited
15.	005704	M/s. Karbi Tea Plantation Private Limited
16.	006304	M/s. Kakojan Tea Company Private Limited
17.	005203	M/s. Hopak Tea Company Private Limited

G. C. YADAV
Registrar of Companies
N. E. Region

In the matter of Companies Act, 1956
and of the following Companies

Cuttack-753001, the 2nd December 2010

No. ROC/Sec/560(5)/EES/2010/4966—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the following Companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-007755	M/s. Rural Marketing (Orissa) Private Limited
2.	15-007762	M/s. JJ Alloys Private Limited
3.	15-007770	M/s. Multioption Solutions Private Limited
4.	15-007777	M/s. Utkal Multiplex Private Limited
5.	15-007779	M/s. Ommsai Dotnet Private Limited
6.	15-007784	M/s. Bhabani Chemicals Private Limited
7.	15-007786	M/s. Reepo Management Services Private Limited
8.	15-007787	M/s. Sambhav Solutions Private Limited
9.	15-007791	M/s. Nrusingha Services Private Limited
10.	15-007793	M/s. Maruti Ores Private Limited
11.	15-007794	M/s. Nirman Vikash Private Limited
12.	15-007797	M/s. Aaryan Bio-Medicals Private Limited
13.	15-007798	M/s. Ray Fincon Private Limited
14.	15-007799	M/s. Akhandalamani Real Estates and Developers Private Limited

1	2	3
15.	15-007803	M/s. Laxmi Narayan Marketing and Networking Concepts Private Limited
16.	15-007807	M/s. Maa Sodasi Security Services Private Limited
17.	15-007813	M/s. R. S. Sugar Co. Private Limited
18.	15-007814	M/s. Es En Bee Trading Private Limited
19.	15-007820	M/s. Jayshri Alloys Private Limited
20.	15-007828	M/s. Swarna Hira Estate and Promoters Private Limited
21.	15-007804	M/s. Patriarch Estate and Construction Private Limited
22.	15-007836	M/s. Signal Builders and Engineers Private Limited
23.	15-007845	M/s. Rathi Vaastu Consultants Private Limited
24.	15-007848	M/s. Bou Real Estate and Promoters Private Limited
25.	15-007851	M/s. PK Minerals Private Limited
26.	15-007858	M/s. Realcare Builders Private Limited
27.	15-007864	M/s. Infrasy Construction and Technology Private Limited
28.	15-007865	M/s. Maa Kichakeswari Resorts Private Limited
29.	15-007871	M/s. Vudebi Constructions Private Limited
30.	15-007872	M/s. Krushak Bandhu Bio Tech Private Limited
31.	15-007877	M/s. Noble Placement Guidance Cell Private Limited
32.	15-007882	M/s. Panda Mines and Exports Private Limited
33.	15-007883	M/s. Glean Network Private Limited
34.	15-002137	M/s. J.J. Finance and Investment Limited
35.	15-005306	M/s. Willtech Electronics India Private Limited
36.	15-007884	M/s. Lumbini Exports Private Limited
37.	15-007889	M/s. Maa Kichakeswari Minerals and Metals Private Limited
38.	15-007896	M/s. Om Sarala Estcon. Private Limited
39.	15-007897	M/s. Sri Sri Softcon Private Limited
40.	15-007900	M/s. Heera Herbs Private Limited
41.	15-007905	M/s. Sri Gopal Creations Private Limited
42.	15-007907	M/s. Siba Mix Processors Private Limited
43.	15-007909	M/s. Landlink Construction and Developer Private Limited

1	2	3
44. 15-007917	M/s. Sainath Tours Private Limited	
45. 15-007921	M/s. Pradhan Mines and Minerals Private Limited	
46. 15-007927	M/s. Banewar Mineral Private Limited	
47. 15-007928	M/s. Kamyab Marketing and Services Private Limited	
48. 15-007929	M/s. Sri Krishna Gargi Hospitals Private Limited	
49. 15-007937	M/s. Lords JBS Infrastructure Private Limited	
50. 15-007938	M/s. Jagadhatri Estates and Developers Private Limited	
51. 15-007940	M/s. Shrabanee Transports Private Limited	
52. 15-007943	M/s. Pellican Mineral and Iron Private Limited	
53. 15-007944	M/s. Venkata Sai Marine Exports Private Limited	
54. 15-007948	M/s. Gopinath Real Estate Private Limited	
55. 15-007949	M/s. Sarvotam Ispat Private Limited	
56. 15-007958	M/s. Kedargouri Builders and Developers Private Limited	
57. 15-007959	M/s. Hardev Placement Services Private Limited	
58. 15-007960	M/s. J.B.S. Infosystems Private Limited	
59. 15-007963	M/s. Prasant Electronics and Telecom Spares Private Limited	
60. 15-007964	M/s. Shri Behari Ji Electronics Trading Private Limited	
61. 15-007965	M/s. BRTS Marine Private Limited	
62. 15-007966	M/s. Great Seven Media Private Limited	

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of Companies Act, 1956
and of the following Companies

Bangalore, the 25th November 2010

No. ROCB/MCA-21/TA-MM/560(3)/2010—Notice is
hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said companies shall be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	30618	M/s. Dakshin Machine Tools Private Limited
2.	7152	M/s. Kundapur Finance and Investment Company Private Limited
3.	44753	M/s. Transgenic Biologicals Private Limited
4.	28673	M/s. Gandiva Infotech Private Limited
5.	3081	M/s. Home Equips Private Limited
6.	40693	M/s. Bhoomika Innovations (India) Private Limited
7.	9265	M/s. N. I. Properties and Construction Private Limited
8.	12213	M/s. Kidiyur Investments Private Limited
9.	13273	M/s. Mehta Industrial Suppliers Private Limited
10.	43097	M/s. Supra Systems Private Limited
11.	46790	M/s. Nex-G Systems (India) Private Limited
12.	32460	M/s. Azygos Consulting Private Limited
13.	31457	M/s. Dewdocs Private Limited
14.	46239	M/s. Uninet Imaging India Private Limited
15.	40221	M/s. Celerity Solutions Private Limited
16.	43176	M/s. Ce Be Network Cades Engineering India Private Limited
17.	31976	M/s. Packnet Communications Private Limited
18.	33428	M/s. Techno Pragati Electronics Private Limited

K. GEETHA MAHALAKSHMI
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka